



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2017/फाल्गुन 9, 1938

No. 597]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2017/PHALGUNA 9, 1938

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.आ.666(अ).— केंद्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463 (अ) तारीख 26 फरवरी, 2013, का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में, "अनुसूची" के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची

अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए राज्य-वार मजदूरी की दर

(रु. प्रति दिन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रतिदिन मजदूरी की दर
(1)	(2)	(3)
1.	आंध्र प्रदेश	197.00 रु.
2.	अरुणाचल प्रदेश	177.00 रु.
3.	असम	183.00 रु.
4.	बिहार	168.00 रु.
5.	छत्तीसगढ़	172.00 रु.
6.	गोवा	240.00 रु.
7.	गुजरात	192.00 रु.
8.	हरियाणा	277.00 रु.
9.	हिमाचल प्रदेश	गैर-अनुसूचित क्षेत्र - 179.00 रु. अनुसूचित क्षेत्र - 224.00 रु.
10.	जम्मू - कश्मीर	179.00 रु.
11.	झारखंड	168.00 रु.

12.	कर्नाटक	236.00 रु.
13.	केरल	258.00 रु.
14.	मध्य प्रदेश	172.00 रु.
15.	महाराष्ट्र	201.00 रु.
16.	मणिपुर	204.00 रु.
17.	मेघालय	175.00 रु.
18.	मिजोरम	194.00 रु.
19.	नागालैंड	177.00 रु.
20.	ओडिशा	176.00 रु.
21.	पंजाब	233.00 रु.
22.	राजस्थान	192.00 रु.
23.	सिक्किम	177.00 रु.
24.	तमिलनाडु	205.00 रु.
25.	तेलंगाना	197.00 रु.
26.	त्रिपुरा	177.00 रु.
27.	उत्तर प्रदेश	175.00 रु.
28.	उत्तराखंड	175.00 रु.
29.	पश्चिमी बंगाल	180.00 रु.
30.	अंडमान और निकोबार	अंडमान जिला
		236.00 रु.
		निकोबार जिला
		249.00 रु.
31.	चंडीगढ़	265.00 रु.
32.	दादरा और नागर हवेली	218.00 रु.
33.	दमण और दीव	195.00 रु.
34.	लक्षद्वीप	237.00 रु.
35.	पुडुचेरी	205.00 रु."

2 यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. जे. - 11011/1/2009-एमजीएनआरईजीए(भाग 3)]

अपराजिता सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 463 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:

- (i) का.आ. 400(अ), तारीख 13 फरवरी, 2014 ; और
- (ii) का.आ. 2118(अ), तारीख 22 अगस्त, 2014
- (iii) का.आ. 890(अ), तारीख 31 मार्च, 2015
- (iv) का.आ. 1205 (अ), तारीख 23 मार्च, 2016

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th February, 2017

S.O.666(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number S.O. 463(E) dated the 26th February, 2013, namely:-

1. In the said notification, for the "SCHEDULE", the following Schedule shall be substituted, namely:-

"Schedule**State-wise wage rate for unskilled manual workers****(Rupees per day)**

Sl. No	Name of State/ Union territory	Wage rate in Rupees per day
(1)	(2)	(3)
1	Andhra Pradesh	Rs. 197.00
2	Arunachal Pradesh	Rs. 177.00
3	Assam	Rs. 183.00
4	Bihar	Rs. 168.00
5	Chhattisgarh	Rs. 172.00
6	Goa	Rs. 240.00
7	Gujarat	Rs. 192.00
8	Haryana	Rs. 277.00
9	Himachal Pradesh	Non-scheduled Areas-Rs. 179.00 Scheduled Areas-Rs.224.00
10	Jammu and Kashmir	Rs. 179.00
11	Jharkhand	Rs. 168.00
12	Karnataka	Rs. 236.00
13	Kerala	Rs. 258.00
14	Madhya Pradesh	Rs. 172.00
15	Maharashtra	Rs. 201.00
16	Manipur	Rs. 204.00
17	Meghalaya	Rs. 175.00
18	Mizoram	Rs. 194.00
19	Nagaland	Rs. 177.00
20	Odisha	Rs. 176.00
21	Punjab	Rs. 233.00
22	Rajasthan	Rs. 192.00
23	Sikkim	Rs. 177.00
24	Tamil Nadu	Rs. 205.00
25	Telangana	Rs. 197.00
26	Tripura	Rs. 177.00
27	Uttar Pradesh	Rs. 175.00
28	Uttarakhand	Rs. 175.00
29	West Bengal	Rs. 180.00
30	Andaman and Nicobar	Andaman District Rs. 236.00 Nicobar District Rs. 249.00
31	Chandigarh	Rs. 265.00
32	Dadra and Nagar Haveli	Rs. 218.00
33	Daman and Diu	Rs. 195.00
34	Lakshadweep	Rs. 237.00
35	Puducherry	Rs. 205.00"

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2017.

[F. No. J-11011/1/2009-MGNREGA (Pt.III)]

APARAJITA SARANGI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 463(E), dated the 26th February, 2013 and subsequently amended vide the following notifications -

- (i) S.O. 400(E), dated the 13th February, 2014;
- (ii) S.O. 2118(E), dated the 22nd August, 2014;
- (iii) S.O. 890(E), dated the 31st March, 2015; and
- (iii) S.O. 1205 (E), dated the 23rd March, 2016.